

**\*@shahjahanpurpol\***

**\*प्रेस नोट – सराहनीय कार्य दिनांक 12.06.2021\***

**\*थाना बण्डा पुलिस ने की त्वारित कार्यवाही,\***

**\*रौब दिखाने के लिये सोशल मीडिया पर अवैध असलहा के साथ फोटों डालने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार,**

**02 तमंचा मय कारतूस बरामद ।\***

श्री एस आनन्द पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जनपद मे अवैध असलहा रखने वाले व अवैध असलहा की खरीद फरोख्त करने वालो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे श्री संजीव कुमार अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण व श्री नवनीत कुमार नायक, क्षेत्राधिकारी पुवायां जनपद शाहजहांपुर के निर्देशन में थाना बण्डा पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली ।

थाना बण्डा पुलिस को ज सूचना मिली कि दो युवको द्वारा अपना रौब दिखाने के लिए अवैध तमन्चों के साथ फोटों सोशल मीडिया पर वायरल किया था तथा उक्त फोटों को दिखाकर जनता मे अपना रौब जमाते थे । श्री एस. आनन्द पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर द्वारा प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए प्रभारी निरीक्षक बण्डा श्री मनोज कुमार को तत्काल आवश्यक कार्यवाही कर अभियुक्त को गिरफ्तार किये जाने हेतु निर्देश दिये । इसी क्रम में दिनांक 11.06.2021 को थाना बण्डा पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण 1. पंकज 2. ओम शुक्ला को फोटो मे प्रदर्शित 01-01 अदद देशी तमंचा व 02-02 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया । बरामदगी के आधार पर नियमानुसार अभियोग पंजीकृत किया गया है। उपरोक्त अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में गया ।

**\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-\***

1. पंकज पुत्र जसवंत नि0 मो0 रायटोला कस्वा व थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर
2. ओम शुक्ला पुत्र रामौतार नि0 मो0 रायटोला कस्वा व थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर

**\*आपराधिक इतिहास-\***

- 1- मु0अ0सं0 363/2021 धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम पंकज
- 2- मु0अ0सं0 364/2021 धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम ओम शुक्ला

**\*बरामदगी का विवरण-\***

- 1- 02 अदद देशी तमंचा 315 बोर,
- 2- 04 अदद देशी जिन्दा कारतूस 315 बोर

**\*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-\***

- 1- श्री मनोज कुमार प्रभारी निरीक्षक बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
- 2- उ0नि0 श्री रवेन्द्र सिंह थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
- 3- उ0नि0 श्री तनवीर अहमद थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर
- 4- का0 1893 पुष्पेन्द्र कुमार थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
- 5- का0 1082 कुलदीप सिंह थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर
- 6- का0 2268 अजयपाल थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर
- 7- का0 2278 कुलदीप कुमार थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर